



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2002/श्रावण 23, 1924

No. 371]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2002/SRAVANA 23, 1924

वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2002

सांका०नि० 565 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 641 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 13 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अनुसूची के भाग II के खंड II के पैरा 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) समय-समय पर वाणिज्य विभाग द्वारा यथा अधिसूचित विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों में कंपनियों की बाबत 2,40,00,000 रुपए प्रतिवर्ष या 20,00,000 रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह तब जब कि इन कंपनियां ने भारत में अशो (शेयरों) या लाभांशों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा किसी धनराशि को नहीं जुटाया हो :

परंतु यह और कि ऐसी कंपनियों ने भारत में अपने ऋणों में से किसी के (जिनके अंतर्गत लोक निक्षेप भी हैं) या लाभांशों या उन पर सदेव ब्याज के प्रतिसंदाय में, किसी वित्तीय वर्ष में तीस दिन की लगातार अवधि तक कोई व्यवक्रम नहीं किया है।”

2. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा० सं० 5/15/2002-सी.एल.-V]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अनुसूची कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा सांका०नि० सं० 559 (अ) तारीख 10-6-88 के तहत अंतःस्थापित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए हैं :—

- (i) सांका०नि० 784(अ), तारीख 13-7-1988
- (ii) सांका०नि० 723(अ), तारीख 18-9-1990
- (iii) सांका०नि० 510(अ), तारीख 14-7-1993
- (iv) सांका०नि० 48(अ) तारीख 1-2-1994

- (v) सांकांनि० 418(अ), तारीख 12-9-1996
- (vi) सांकांनि० 215(अ), तारीख 2-3-2000
- (vii) सांकांनि० 36(अ), तारीख 16-1-2002

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2002

G.S.R. 565(E) :—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in Schedule XIII to the said Act, namely —

1 In the said Schedule, in Part II, in section II, in paragraph 1, after clause (C), the following clause shall be inserted, namely —

“(D) not exceeding Rs. 2,40,00,000 per annum or Rs. 20,00,000 per month in respect of companies in Special Economic Zones as notified by Department of Commerce from time to time .

Provided that these companies have not raised any money by public issue of shares or debentures in India :

Provided further that such companies have not made any default in India in repayment of any of its debts (including public deposits) or debentures or interest payable thereon for a continuous period of thirty days in any financial year”

2 It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 5/15/2002-CL ~V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.

Note :—The Principal Schedule was inserted by the Companies (Amendment) Act, 1988 vide G.S.R. No. 559(E) dated 10-6-1988 and subsequently amended vide—

- (i) G.S.R. 784 (E) dated 13-7-1988
- (ii) G.S.R. 723 (E) dated 18-9-1990
- (iii) G.S.R. 510 (E) dated 14-7-1993
- (iv) G.S.R. 48 (E) dated 1-2-1994
- (v) G.S.R. 418 (E) dated 12-9-1996
- (vi) G.S.R. 215 (E) dated 2-3-2000
- (vii) G.S.R. 36 (E) dated 16-1-2002